

CBSE SAMPLE PAPER CLASS-XII

BIOLOGY (Theory)

निर्धारित समय: 3 घण्टे
Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक: 70
Maximum Marks : 70

सामान्य निर्देश :

- (i) प्रश्न-पत्र में खण्डों में 26 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) खण्ड- क में प्रश्न संख्या 1 से 5 अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है।
- (iii) खण्ड- ख में प्रश्न संख्या 6 से 10 लघु-उत्तरीय प्रश्न I प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का है।
- (iv) खण्ड- ग में प्रश्न संख्या 11 से 22 लघु-उत्तरीय प्रश्न II प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न तीन अंकों का है।
- (v) खण्ड- घ में प्रश्न संख्या 23 मूल्य आधारित प्रश्न चार अंकों का है।
- (vi) खण्ड- ङ में प्रश्न संख्या 24 से 26 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पाँच अंकों का है।
- (vii) प्रश्न-पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, फिर भी दो अंकों वाले एक प्रश्न में, तीन अंकों वाले एक प्रश्न में और पाँच अंकों वाले सभी तीनों प्रश्नों में भीतरी चयन-विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी को ऐसे प्रश्नों के दो विकल्पों में से कोई एक प्रश्न हल करना है।

General Instructions:

- (i) There are a total of 26 questions and five sections in the question paper. All questions are compulsory.
- (ii) Section A contains questions number 1 to 5, Very short Answer type questions of one mark each.
- (iii) Section B contains questions number 6 to 10, Short Answer type-I question of two marks each.
- (iv) Section C contains questions number 11 to 22, Short Answer type-II question of three marks each.
- (v) Sections D contains question number 23, Value Based Question of four marks.
- (vi) Section E contains question number 24 to 26, Long Answer type questions of five marks each.
- (vii) There is no overall choice in the question paper, however, an internal choice is provided in one question of two marks, one question of three marks and all three questions of five marks. An examinee is to attempt any one of the questions out of the two given in the question paper with the same question number.

खण्ड-क

SECTION-A

1. दो जंतुओं के नाम बताइए जिनमें मद् चक्र प्रदर्शित होता है।
Name two animals that exhibit Oestrus cycle. 1
2. बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है ? एक उदाहरण दीजिए।
What is point mutation ? Give one example. 1
3. एक एक्सॉन से एक इन्ट्रॉन में भेद करने के लिए एक अंतर बताइए।
Mention one difference to distinguish an exon from an intron. 1
4. एक संदिग्ध AIDS के रोगी में HIV का पता लगाने के लिए आण्विक नैदानिक क्रियाविधि का सुझाव दीजिए।
Suggest a molecular diagnostic procedure that detects HIV in a suspected AIDS patient. 1
5. किसी स्पीशीज के लिए प्रकृति की वहन क्षमता किस बातका संकेत देती है?
What does nature's carrying capacity for a species indicate ? 1

खण्ड-ख
SECTION-B

6. पेशीस्तर और अतःस्तर की स्थिति एवं उनके कार्यों की चर्चा कीजिए। 2

Write the location and functions of Myometrium and Endometrium.

7. परीक्षार्थ क्रॉस (संकरण) से एक व्यष्टि के जीन प्ररूप का निर्धारण करने में कैसे मदद मिलती है? 2

अथवा

डी. एन. ए. बहुरूपता के दो अनुप्रयोग लिखिए।

How does a test cross help to determine the genotype of an individual ?

OR

Mention two application of DNA polymorphism.

8. मधुमक्खी पालन करने के लिए किस प्रकार के क्षेत्र उपयुक्त होते हैं ? इस कार्य के लिए आमतौर से पाली जाने वाली किस्स का वैज्ञानिक नाम लिखिए। 2

What kind of areas are suitable for practicing apiculture ? Write the scientific name of the variety commonly reared for the purpose.

9. संकटापन्न जैव विविधता के संरक्षण के लिए चार उन्नत स्व-स्थाने विधियों का सुझाव दीजिए। 2

Suggest four advanced ex-situ methods to conserve threatened biodiversity.

10. किसी जल निकाय का निम्न BOD स्वच्छ पानी वाले जलीय जीवों की वापसी को सहायता देते हैं। व्याख्या कीजिए। 2

Lower BOD of a water body helps reappearance of clean-water organisms. Explain.

खण्ड-ग

SECTION-C

11. औद्योगिकीकरण के पश्चात, इंग्लैंड में सफेद पंखों वाले शलभों के सीन पर मेलानिनी शलभों की समष्टि की वृद्धि हो गयी। इस कथन की व्याख्या कीजिए। 3

“Post-industrialization, the population of melanised moth increase in England at the expense of white-winged moths.” Provide explanations.

12. पुनर्योगज DNA का पता लगाने के लिए 'अंतपिष्ट निष्क्रियण' विधि को 'प्रतिजैविक प्रतिरोधी' क्रियाविधि की जगह क्यों वरीयता दी जाती है? 3

Why does the 'insertional inactivation' method to detect recombinant DNA is preferred to 'antibiotic resistance' procedure ?

13. पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी में EcoRI एंजाइम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 3

Explain the role of the enzyme EcoRI in recombinant DNA technology.

14. भ्रूणीय अवस्था का नामांकित आरेख बनाइए जो स्त्री के गर्भाशय के भीतर अंतरोपित हो जाता है। दो नामांकित भागों के कार्य बताइए। 3

Draw a labelled diagram of the embryonic stage that gets implanted in the human uterus. State the function of the two parts labelled.

15. (a) एक पपिक्व 7 कोशिका तथा 8-न्यूक्लियस वाले भ्रूण-कोश का नामांकित आरेख बनाइए। 3

(b) भ्रूण-कोश की कौन सी एक कोशिका दोहरे निषेचन के बाद एंडोस्पर्म बनाती है?

(a) Draw a labelled sketch of a mature 7-celled, 8-nucleate embryo-sac.

(b) Which one of the cell in an embryo-sac produce endosperm after double fertilization ?

16. जैव विविधता संरक्षण के समर्थन में संकीर्णतः उपयोगी तर्क दिए जाते हैं। इसी उद्देश्य के समर्थन में दिए जाने वाले दो अन्य तर्कों की भी व्याख्या कीजिए। 3

Narrowly utilitarian arguments are put forth in support of biodiversity conservation. Explain the other two arguments that are put forth in support of the same cause.

17. किसी पहाड़ी सीान की सैर करने पर आपके एक मित्र की तबियत अचानक खराब हा गयी और उसे बैचेनी महसूस होने लगी।

(a) कोई ऐसे दो रोग लक्षण बताइए जिसके कारण यह ऐलर्जी हो गयी। 3

(b) किसी ऐलर्जन के प्रति होने वाली शरीर की अनुक्रिया की व्याख्या कीजिए।

© तात्कालिक आराम देने के लिए किन्हीं दो औषधियों के नाम बताइए।

On a visit to a Hill station, one of your friend suddenly became unwell and felt uneasy.

- (a) List two symptoms you would look for to term it to be due allergy.
- (b) Explain the response of the body to an allergen.
- (c) Name two drugs that can be recommended for immediate relief.

18. (a) हर्शे और चेच ने अपने प्रयोग में रेडियो सक्रिय सल्फर और रेडियो सक्रिय फॉस्फोरस का उपयोग क्यों किया ? 3

(b) अंत में वे किस निष्कर्ष पर पहुँचे ? और कैसे ? चर्चा कीजिए।

(a) Why did Hershey and Chase use radioactive sulfur and radioactive phosphorus in their experiment ?

(b) Write the conclusion they arrived at and how.

19. (a) अपने परभक्षियों से बचने के लिए पौधे द्वारा विकसित किन्हीं दो प्रतिरक्षा प्रणाली की व्याख्या कीजिए। 3

(b) परभक्षण और परजीवता में अंतर बताइए।

(a) Explain any two defence mechanisms plants have evolved against their predators.

(b) How does predation differ from parasitism ?

20. मानव रूधिर-वर्ग बहुविकल्पता और सहप्रभाविता का एक आच्छा उदाहरण है। युक्ति संगतता बताइए। 3

Human blood group is a good example multiple allelism and co-dominance. Justify.

21. (a) जीन-उपचार क्या होता है ?

(b) उस क्रियाविधि का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा इस प्रकार के किसी रोग का स्थायी रूप से उपचार किया जा सकता है। इस रोग का नाम लिखिए। 3

(a) What is Gene therapy?

(b) Describe the procedure of such a therapy that could be a permanent cure for a disease. Name the disease.

22. समुद्र में जीवसंहति के पिरैमिड एवं ऊर्जा के पिरैमिड के आरेख बनाइए। बनाए गए पिरैमिडों के प्रकारों पर अपने विचार प्रकट कीजिए।

3

अथवा

- (a) निम्नलिखित ग्रीनहाउस गैसों को उनके सकल वैश्विक ऊष्मण में आपेक्षिक योगदान के वृद्धिमान क्रम में लिखिए:
N₂O;CFC;CO₂;C₂H₄
- (b) वैश्विक ऊष्मण का ध्रुवीय बर्फीली चोटियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके संभवी पारिस्थितिकीय प्रभाव की चर्चा कीजिए।
Draw a pyramid of biomass and pyramid of energy in sea. Give your comments on the type of pyramids drawn.

OR

- (a) Rearrange the following greenhouse gases in increasing order of their relative contribution to the total global warming:
N₂O;CFC;CO₂;C₂H₄
- (b) What is the effect of global warming on polar ice-caps ? Comment on its possible ecological impact.

खण्ड-घ

SECTION- D

23. आपका/आपकी एक मित्र है जिसके माँ-बाप उसके दिन-प्रतिदिन के मामलों में बहुत दखल देते हैं। वे उसे अभी तक बच्चा ही समझते हैं जिसके कारण वह दुःखी हो जाता/जाती है और हर समय परेशान रहता/रहती है। वह सोचता/सोचती है कि उसके माँ-बाप उसे कुछ मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर दें।

- (a) क्या आप अपने मित्र का समर्थन करते हैं और क्यों?
- (b) इस आयु-वर्ग की विशिष्टताएँ लिखिए।
- (c) दो नैदानिक उपाय बताइए,।

4

You have a friend whose parents are too indulgent in his /her daily affairs. They think him/her to be still young which makes him/her sad and is upset all the time. As he/ she feels that the parents should give him/her opportunity to take independent decision on some issues.

- (a) Would you support your friend and why ?
- (b) Write the characteristics of this age grup.
- © List two curative measures.

खण्ड- ड़

SECTION- E

24. (a) एक मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस (HIV) किस प्रकार परपोषी के भीतर प्रतिकृतियन करता है ?
(b) HIV से संक्रमित रोगी अपनी प्रतिरक्षता किस प्रकार खो बैठता है ?
(c) इस रोग के कोई दो लक्षण बताइए।

5

अथवा

अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए :

- (a) प्राथमिक उपचार
(b) द्वितीयक उपचार


- (a) How does a Human Immunodeficiency Virus (HIV) replicate in a host ?
(b) How does an HIV-ubfected patient lose immunity ?
(c) List any two symptoms of this disease.

2+3

OR

Describe the process of waste treatment under the following heads:

- (a) Primary treatment
(b) Secondary treatment.




- (a) ऊपर दिए गए प्रतिकृतियन यूनिट के आरेख में A और B वलयकों को पहचानिए तथा बताइए कि किस आधार पर आपने उन्हें पहचाना है।
(b) एक बैक्टीरियम में होने वाली प्रतिकृतियन प्रक्रिया में सिग्मा कारक तथा Rho कारक के क्या कार्य हैं?
(c) सुकेन्द्रकियों में RNA पॉलीमरेज I और RNA पॉलीमरेज III के कार्य लिखिए।

5

अथवा

एक प्राक केन्द्रकीय कोशिका में तथा एक सुकेन्द्रकीय केन्द्रक में DN। हेलिक्स की पैकेजिंग का वर्णन कीजिए।



- (a) Identify strands 'A' and 'B' in the diagram of transcription unit given above and write the basis on which you identified them.
- (b) State the functions of Sigma Factor and Rho factor in the transcription process in a bacterium.
- (c) Write the functions of RNA polymerase-I and RNA polymerase-III in eukaryotes.

OR

Describe the packaging of DNA helix in a prokaryotic cell and an eukaryotic nucleus.

- 26 (a) मानव वृषणों में शुक्राणुजनन कहाँ होता है शुक्राणुओं के बनने तक शुक्राणुजनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
- (b) शुक्राणु के स्खलन वाहिनी तक पहुँचने का मार्ग बताइए।

5

अथवा

परागण के अपने संगत वतिक्राय तक पहुँचने के बाद निषेचन होने तक की फूल में होने वाली घटनाओं की व्याख्या कीजिए।

- (a) Where does spermatogenesis occur in human testes? Describe the process of spermatogenesis upto the formation of spermatozoa.
- (b) Trace the path of spermatozoa from the testes upto the ejaculatory duct only.

OR

Explain the events upto fertilization that occur in a flower after the pollen grain has landed on its compatible stigma.